



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 219 ]  
No. 219]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2002/भाद्र 4, 1924  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2002/BHADRA 4, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2002

सं. 33/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/26/ए एम 03/पीसी-IV.—

निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

1. सावजनिक सूचना सं. 14 दिनांक 31-5-2002 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निर्यात आयात नीति 2002—2007 के अंतर्गत जारी डी ई पी बी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क ( एस ए डी ) की छूट का प्रावधान शामिल किया गया था तथा जिसमें “ अनुमत निर्यात ” का आदेश 01 अप्रैल, 2002 से पहले लागू था। उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 और 7 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

3. पोत लदानों के संबंध में पहले ही जारी डी ई पी बी जहाँ “ अनुमत निर्यात ” के आदेश की तारीख 1-4-2002 से पूर्व है, पृष्ठांकन के लिए पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि ये डी ई पी बी, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) 1997—2002 के पैराग्राफ 7.43 के साथ पठित सीमाशुल्क अभिसूचना 34/97 दिनांक 7-4-97 के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2002 तक जारी किए गए हैं। डी ई पी बी लाइसेंस धारक ऐसे पृष्ठांकन को लागू करने के लिए काउण्टर सहायता सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि “ अनुमत निर्यात ” के आदेश की तारीख 1-4-2002 से पूर्व है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे पृष्ठांकनों के अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा इसे कार्य दिवस के भीतर लागू कर सकता है।

7. प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) 2002—2007 के पैराग्राफ 4.47 में नीम्नलिखित प्रावधानों का वाक्यबद्ध, उन पोत लदानों के संबंध में जहाँ

“ अनुमत निर्यात ” के आदेश की तारीख 1-4-2002 से पूर्व है, या निर्यात आय अभी प्राप्त की जानी है वास्तविक प्रयोक्ता डी ई पी बी के तहत आवेदन करने वाले सभी निर्यातकों को 31 दिसम्बर, 2002 तक अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।

( इस संशोधन से सार्वजनिक सूचना सं. 14 दिनांक 31-5-2002 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 31-12-2002 तक बढ़ा दिया गया है। )

2. “ नामित एजेंसियों द्वारा सोना/चाँदी/प्लेटिनम को जारी करने ” से संबंधित पैराग्राफ 4.64 के अंतिम वाक्य का निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

नामित एजेंसियों द्वारा 0.995/0.999 शुद्धता वाला सोना/चाँदी और 0.900 या अधिक शुद्धता वाला प्लेटिनम जारी किया जायेगा।

3. पैराग्राफ 8.6.5 के प्रथम वाक्य में शब्द और अभिव्यक्ति “ पैरा 8.3 ( च ) ” को शब्द और अभिव्यक्ति “ पैरा 8.2 ( च ) ” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. “ जाँच और प्रमाणन एजेंसियों की सूची ” से संबंधित परिशिष्ट 28 की क्रम संख्या 10 और 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

10. बी एम आई इन्स्पेक्टोरेट लिमिटेड  
2, पेरी रोड, विथम एसेक्स सीएम8 3 टीयू  
इंग्लैण्ड
21. मूडी इंटरनेशनल ( इ ) प्राइवेट लिमिटेड  
32/33, गौतम कम्प्लेक्स,  
सेक्टर-11, सी.बी.डी. बेलारपुर,  
नई दिल्ली-400614 ( महाराष्ट्र )  
दूरभाष : 022 7580044, फैक्स: 022-7580033

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानासंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

# **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

## **PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 26th August, 2002

**No. 33/2002—2007**

**F.No. 01/94/180/26/AM03/PC-IV.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) :

1. Attention is invited to Public Notice No. 14 dated 31.5.2002 which introduced a special provision for exemption of Special Additional Duty (SAD) on DEPB's issued under the Exim Policy 2002—2007 where the order of "Let Export" was prior to 01.04.2002. Para 3 and 7 of the said Public Notice is amended as under :

3. The DEPBs already issued in respect of shipments where the date of order of "Let Export" is prior to 1-4-2002 may be re-submitted for endorsement that "These DEPBs have been issued under Customs Notification 34/97 dated 7.4.97 read with paragraph 7.43 of Handbook of Procedures (Vol. 1), 1997—2002 by 31st December, 2002. The DEPB licence holder may avail the counter assistance facility to apply such endorsements. The licencing authority may consider requests for such endorsements if the date of order of "Let Export" is prior to 1-4-2002 and return it within 3 working days.

7. Notwithstanding the provision given in paragraph 4.47 of the Handbook of Procedures (Vol. 1) 2002—2007, all exporters filing applications for actual user DEPB

pending realisation of export proceeds or a transferable DEPB subsequent to realisation of export proceeds, in respect of shipments where the date of order of "Let Export" is prior to 01.04.2002, shall be required to do so latest by 31st December, 2002.

(This amendment extends the last date of filing of applications under PN 14 dtd. 31-5-2002 to 31-12-2002)

2. The last sentence of para 4.64 pertaining to the "Release of Gold/Silver/Platinum by Nominated Agencies" is amended as under :

The gold/silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995/0.999 fineness and platinum in terms of 0.900 fineness or more.

3. The words and expression "para 8.3(f)" in the first sentence of para 8.6.5 is substituted by the words and expression "para 8.2(f)".

4. S. Nos. 10 and 21 of Appendix 28 pertaining to "List of Inspection and Certification Agencies" is amended as under

10. BSI Inspectorate Limited  
2, Perry Road, Witham Essex CM8 3 TU  
England
21. Moody International (I) Pvt. Ltd.  
32/33, Gautam Complex,  
Sector-11, C.B.D. Belapur,  
Navi Mumbai-400 614 (Maharashtra)  
Tel. 022-7580044, Fax. 022-7580033

This issues in public interest

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade